



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 12] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 20—मार्च 26, 2004 (फाल्गुन 30, 1925)
No. 12] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 20—MARCH 26, 2004 (PHALGUNA 30, 1925)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

मुम्बई-400005, दिनांक 13 फरवरी 2004

बैं. प. वि. एआरएस. सं. 571/08.21.002/2003-2004-- भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 41 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए तथा केन्द्रीय सरकार से परामर्श करके, भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित लेखा परीक्षा फर्मों को वर्ष 2003-2004 के लिए तथा भारतीय स्टेट बैंक की अगली वार्षिक साधारण बैठक होने तक बैंक के सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया है :

- (1) मेसर्स बी. एम. चतरथ एंड कंपनी, कोलकाता
- (2) मेसर्स व्यास एंड व्यास, मुंबई
- (3) मेसर्स एस. पी. चौपड़ा एंड कंपनी, नई दिल्ली
- (4) मेसर्स एस. विश्वनाथन, चेन्नई
- (5) मेसर्स आर. देवेन्द्रकुमार एंड एसोसिएट्स, मुंबई
- (6) मेसर्स ओ.पी. टेयला एंड कंपनी, इंदौर
- (7) मेसर्स जी. एस. माथुर एंड कंपनी, नई दिल्ली
- (8) मेसर्स शर्मा एंड कंपनी, कोलकाता
- (9) मेसर्स वेणुगोपाल एंड शेणॉय, हैदराबाद
- (10) मेसर्स के. एस. अय्यर एंड कंपनी, मुंबई
- (11) मेसर्स बी. डी. बंसल एंड कंपनी, अमृतसर
- (12) मेसर्स के. पी. राव एंड कंपनी, बंगलूर
- (13) मेसर्स चतुर्वेदी एंड कंपनी, कोलकाता
- (14) मेसर्स फिलिपॉस एंड कंपनी, बंगलूर

उषा थोरात
कार्यपालक निदेशक

सरकारी और बैंक लेखा विभाग
केन्द्रीय कार्यालय
मुंबई

भारत सरकार के राजपत्र में 20 अप्रैल 1946 को प्रकाशित तथा 29 अप्रैल 1954 की अधिसूचना सं. एफ. (8) 70/बी 52 और भारत सरकार के दिनांक 21 फरवरी, 1990 के असाधारण राजपत्र सं. 67 के अंतर्गत यथा संशोधित लोक ऋण अधिनियम 1944 की धारा 28 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा बनाए गए लोक ऋण नियमावली 1946 के नियम 18 के अनुसार जनवरी 2004 को समाप्त माह के लिए निम्नलिखित सूची जो मई आदि ऐसी प्रतिपूर्तियों के बारे में एतद्द्वारा विज्ञापित की जाती है, जिसके संबंध में इस बात का विश्वास करने के लिए प्रथम दृष्टया आधार मौजूद है कि प्रतिपूर्तियां खो गयी हैं और आवेदकों का दवा न्यायोचित है। जैसे लिखे गये संबंधित खदेचरों से इतर सभी व्यक्ति विनका प्रतिपूर्तियों पर किसी प्रकार का दवा हो, तत्काल महा प्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक केन्द्रीय कार्यालय, सरकारी और बैंक लेखा विभाग, केन्द्रीय ऋण प्रभाग, मुंबई 400 008 को संप्रेषित करने से सूची दो भागों में विभाजित की गई है। भाग क में अभी पहली बार विज्ञापित प्रतिपूर्तियां शामिल की गई हैं और भाग ख में पूर्व विज्ञापित प्रतिपूर्तियों की सूची दी गई है।

प्रतिपूर्तियों की सं.					
1.	2.	3.	4.	5.	6.
मुची "क"					
भायखला, मुंबई सर्कल					
9% राहत पत्र 1987					
बी.सी. 4297 और 4298 (जी.पी.ए.)	रु. 50,000/- हर एक	विनोदकुमार बी. रंगटा मंजुलादेवी बी. रंगटा	02.03.1988	विनो. कुमार बी. रंगटा मंजुलादेवी बी. रंगटा	06.25.59 10.6.2002
बी.सी. 4327 (जी.पी.ए.)	रु. 50,000/-	इंदु कुमार. रंगटा मधुदेवी आई. रंगटा	03.03.1988	इंदु कुमार. रंगटा मधुदेवी आई. रंगटा	-वही-
9% राहत पत्र 1999 (डीमेट)					
बी.सी.सी.-010333 (जी.पी.एस)	रु. 40,00,000/-	विजकिशोर चतुर्वेदी उमा बी. चतुर्वेदी	25.7.2000	विजकिशोर चतुर्वेदी उमा बी. चतुर्वेदी	06.25.89 24.9.2003

मुंबई (फोर्ट) सर्कल

भारत सरकार 6.50 प्रतिशत ऋण 2003

मुची "ख"					
बी.वाई 031309	रु. 20,500/-	रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया	11.3.1997	मेसर्स ए.बी.सी. डेअरिंग्स लि. कर्मचारी अपवर्ग निधि	समस्ता क्र. 20.4.2212 महा प्रबंधक के दि. 27.11.2003 के अतिश तथा केन्द्रीय कार्यालय डावरी संख्या 303 दि. 27.11.2003
बी.वाई 031310	रु. 1,000/-	-वही-	-वही-	-वही-	-वही-

21/20/137/16
(ए.एस. मोहिनी)
कुल मुख्य महा प्रबंधक
29 फरवरी 2004

भारतीय स्टेट बैंक
(सहयोगी एवं अनुषंगी समूह)
मुंबई, दिनांक 01 मार्च 2004

एसबीडी क्र. 20/2003-04.--भारतीय स्टेट बैंक (सहयोगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 29 (1) के निबंधनानुसार भारतीय स्टेट बैंक ने स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र के निदेशक मंडल से परामर्श करके तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन से श्री एस. के. सिंग को कार्यग्रहण तिथि से तीन वर्ष तक की अवधि के लिए स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र के प्रबंध निदेशक पद पर नियुक्त किया है।

ए. के. पुरवार
अध्यक्ष

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्
नई दिल्ली-110002, दिनांक 27 फरवरी 2004

सं. फा. 47-5/2003/राअशिप--22 जनवरी, 1996 के विनियम संख्या फा. 28-14/95/राअशिप के साथ पठित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993 की धारा 20 (3)(ग) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्न व्यक्तियों को धारा 20 (3)(ग) के अधीन विभिन्न क्षेत्रीय समितियों में सदस्यों के रूप में नामित किया जाता है।

उत्तर क्षेत्रीय समिति, जयपुर

1. श्री आर. सी. त्रिपाठी
मकान नम्बर ए-1055, इन्दिरा नगर
लखनऊ
2. प्रोफेसर एस. एन. सिंह
ग्लोब बुक सेंटर, लंका, वाराणसी-221005
3. डॉ एस. एस. श्रीवास्तव,
निदेशक, भारतीय शिक्षा शोध संस्थान, सरस्वती कुंज
निराला नगर, लखनऊ-226020, उत्तर प्रदेश
4. प्रोफेसर एस. डी. मिश्रा,
सेवानिवृत्त प्रोफेसर तथा विभागाध्यक्ष,
राजस्थान विश्वविद्यालय,
7-टीए-II, जवाहर नगर, जयपुर-302004

5. प्रोफेसर नरेन्द्रजीत सिंह
70, विजय नगर, भिवानी, हरियाणा
6. प्रोफेसर चमनलाल गुप्ता
प्रोफेसर तथा अध्यक्ष, हिन्दी विभाग
एच.पी. विश्वविद्यालय, शिमला

दक्षिणी क्षेत्रीय समिति, बंगलौर

1. प्रोफेसर पी. वेंकटारमैया
436, डबल रोड, कुवेम्पूनगर,
उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद
2. प्रोफेसर वी.बी.बी. शर्मा,
संकायाध्यक्ष तथा अध्यक्ष, शिक्षा विभाग
उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद
3. प्रोफेसर एस.सी. शर्मा,
20-8-11, न्यू अयोध्यानगर, विजयवाड़ा-520003
4. श्री जी.एस. मुदमबादित्य
सेवानिवृत्त निदेशक, एससीईआरटी, कर्नाटक
नम्बर 3, अन्नपूर्णा, पहला मेन - बी.ई.एम.एल. साल्वेज के सामने
न्यू तिप्पसन्द्र, बंगलौर
5. श्री पी.के. माधवन
साकेतन, किल्ली कुरिस्सी मंगलम,
लक्किडी, पालक्कड
6. प्रोफेसर एम.एन.जी. मणि,
प्रिंसीपल, श्री रामकृष्ण मिशन विद्यालय
कालेज आफ एजुकेशन
श्री रामकृष्ण विद्यालय पोस्ट,
कोयम्बटूर- 641020

पश्चिमी क्षेत्रीय समिति, भोपाल,

1. डॉ. बलवन्त रायजानी
तीर्थ, 264, जनकपुरी,
युनिवर्सिटी रोड, राजकोट - 360005
2. डॉ. शरद भन्द
पूर्व-उपकुलपति,
ई-1, ऋषि नगर, उज्जैन - 456010
3. श्री श्याम सुन्दर त्रिपाठी
आयुर्वेदिक कालेज के पीछे,
सरस्वती विहार, रायपुर - 492010
4. प्रोफेसर इला बेन नायक
संकायाध्यक्ष, शिक्षा
गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद
5. प्रोफेसर के.के. वर्मा
उप-कुलपति,
लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान,
ग्वालियर
6. प्रोफेसर के.डी. मिश्रा
निदेशक/प्रोफेसर
महाराजा आटोनामस कालेज, छत्तरपुर, मध्यप्रदेश

पूर्वी क्षेत्रीय समिति, भुवनेश्वर

1. श्री पी.के. पटनायक
7 एफ, बीजेबी नगर, भुवनेश्वर-751014
2. प्रोफेसर मंगल दुबे
पूर्व-उपकुलपति,
ए-10, प्रोफेसर कालोनी, उत्तरी शास्त्री नगर,
पटना

3. श्री पी.सी. महापात्र
सरस्वती कुँज
ई-59, सेक्टर-ए, जोन-ए,
मानकेश्वर इण्डस्ट्रीयल एस्टेट
भुवनेश्वर - 751010
4. श्रीमती नीलमा शर्मा (गोस्वामी)
रूक्मिणी नगर, मनोहर पथ,
वायरलेस दिसपुर,
गुवाहाटी
5. स्वामी संदर्शन नन्दा
सहायक प्रिंसीपल, रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ,
रामकृष्ण नगर, डाकघर विद्यापीठ,
जिला देवघर,
झारखण्ड
6. श्री कृष्ण स्वामी
तारापुर, सिल्चर, कछार
असम


II. कार्यालय

उपर्युक्त नामांकन तत्काल प्रभाव से दो वर्षों अथवा तब तक के लिए होंगे जब तक कि नई नियुक्तियाँ नहीं कर दी जाती, इनमें से जो भी बाद में हो।

III. नीचे बताए अनुसार निम्न व्यक्ति क्षेत्रीय समितियों के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे -

नाम	क्षेत्रीय समिति
1. श्री आर.सी. त्रिपाठी	उत्तरी क्षेत्रीय समिति
2. प्रोफेसर पी. वेंकटरमैया	दक्षिणी क्षेत्रीय समिति
3. डॉ. बलवन्त रायजानी	पश्चिमी क्षेत्रीय समिति
4. श्री पी.के. पटनायक	पूर्वी क्षेत्रीय समिति
IV. देय भत्ते	

क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों को यात्रा और दैनिक भत्ते का भुगतान परिषद् के नियमों के अनुसार किया जाएगा।


(वी.सी. तिवारी)
सदस्य सचिव

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन [केन्द्रीय कार्यालय]

नई दिल्ली-110066, दिनांक 25 फरवरी 2004

संख्या: 2/1959/डो. एल. आई. /एचएम/89/भाग-1 /2057

साधु कापूर.....जहाँ मेरा स. टाटा इन्टरनेशनल लि., क्लक-ए, गिब्सतानगर

स्टेट, डा० ए.बी. रोड वरली, मुम्बई-400018; तथा साता स० एमएस/6659.....

.....ने कर्मचारी भविष्य निधि और

प्रमोणी उपबन्ध अधिनियम, 1952, 1952 का 19 के धारा 17 की उपधारा 2 के

अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है जिसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहे गये हैं ।

चूंकि मैं, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूँ कि

उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बोमा के रूप में भारतीय जीवन बोमा निगम की सामूहिक बोमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहक बोमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है । जिसमें इसके पश्चात् स्कीम का गया है ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं उक्त स्थापना को उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावी बिते तारीख से उक्त स्थापना को केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने स्कीम की धारा 26(7) के अन्तर्गत डोल प्रदान की है, 1.3.02 से 28.2.05 की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन को छूट देता हूँ ।

अनुसूची

1- उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक जिसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है सम्बन्धित केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणों भेजना और ऐसे लेखा रखना तथा निरोक्षण के ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक ऐसे निरोक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 3-क के खण्ड-क के अधीन समय समय पर निर्देश करें।
3. लाईफ कवर स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना प्रभार संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।
4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदन लाईफ कवर स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब उसमें संशोधन किया जाये, तब उसे संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।
5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से हो सदस्य है, उस को स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक लाईफ कवर स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा।
6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों का उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं, तो नियोजक लाईफ कवर स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा, जो कि कर्मचारियों के लिए लाईफ कवर स्कीम के अधिन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधिन अनुद्घोष है।
7. लाईफ कवर स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी को मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन स्वेय राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदय होती तब तक उक्त स्कीम के अधिन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के अन्तर के बराबर राशि का संदोय करेगा।
8. लाईफ कवर स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन के कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।
9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी को उस लाईफ कवर स्कीम के, जिसे स्थापना अपना चुकी है अधीन रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी राशि से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है।
10. किसी व्यक्ति का मृत्यु की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बोमा लाभों के संदाय का उत्तर दायित्व नियोजक पर होगा।
11. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी को मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम/निर्देशितो/विधिक वारिसों को बोमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सूनिश्चित करेगा।



§ स. आर. जोशी §
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त।

दिनांक 26 फरवरी 2004

संख्या: 2/1959/डो. एल. आर्. / एमएम/89/भाग-1/2059

श्रीगुं श्रीगुं..... जहाँ मेसर्स. डा. डा. इन्टरनेशनल लि. इन्डियन एरिया.

स. वी. रोड, देवात सय प्रेस, 455001, जहाँ सं. एमएम/2288.....

.....ने कर्मचारी भविष्य निधि और प्रतीक उपबन्ध अधिनियम, 1952, 1952 का 19 को धारा 17 को उपधारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है जिससे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ।


युंकि मैं, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूँ कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रोविडेंट फंड की व्यवस्था किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम को सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निधि सहित बीमा स्कीम, 1976 के अन्तर्गत स्वोकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है । जिससे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 को उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं उक्त स्थापना को उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभावित जिस तारीख से उक्त स्थापना को केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने स्कीम की धारा 26(7) के अन्तर्गत डोल प्रदान की है 2.6.90 से 1.6.93 तक की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन को छूट देता हूँ ।
2.6.93 से 1.6.96, 2.6.96 से 1.6.99, 2.6.99 से 1.6.02 तथा 1.6.02 से 1.6.05

अनुसूची

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक जिससे इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है सम्बन्धित केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियों भेजना और ऐसे लेखा रखना तथा निरीक्षण के ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 3-क के अधीन समय समय पर निर्देश करें।
3. लाईफ कवर स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना प्रभार संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जाएगा।
4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदन लाईफ कवर स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब उसमें संशोधन किया जाये, तब उसे संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।
5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उस की स्थापना में नियोजित किया जाता है तो नियोजक लाईफ कवर स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा।
6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों का उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं, तो नियोजक लाईफ कवर स्कीम के अधीन कर्मचारियों की उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा, जो कि कर्मचारियों के लिए लाईफ कवर स्कीम के अधिन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधिन अनुमेय हैं।
7. लाईफ कवर स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन स्वेय राशि से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में संदय होती तब तक उक्त स्कीम के अधिन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकार के रूप में दोनों राशियों के अन्तर के बराबर राशि को संदोया करेगा।
8. लाईफ कवर स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहाँ किसी संशोधन के कर्मचारियों के हित पर नुकसान प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहाँ केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का सुक्तिपुक्त अवसर देगा।
9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी को उस लाईफ कवर स्कीम के, जिसे स्थापना अपना चुकी है अधीन रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी राशि से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है।
10. किसी व्यक्ति को दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बोमा लाभों के संदाय का उत्तर दायित्व नियोजक पर होगा।
11. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम/निर्देशितों/विधिक वारिसों को बोमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।


 § स. र. जोशी §
 केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त।

दिनांक 27 फरवरी 2004

सं. के. भ. नि. आ. 1(4)/2090/04/टीएन/2061

गोआ **देशीय मक्खन निधि आहुत को जहाँ प्रतीत होता है कि**
निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोजन तथा कार्यवाहियों का बहुमत इस बात से
सहमत है कि कार्यवाही मक्खन निधि और इकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 [1952 का
19] के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें।

क्र.सं.	डो.सं.	स्थापना का नाम	स्थापित की ति.	सहमती की ति.
1.	टीएन/42774	मे० आरमेक लेक्स	13.11.02	13.11.02
2.	टीएन/50425	मे० गिनोर नगर [इन्ड] मिल्क कन्जुमर को-ओप सोसाइटी लि०	19.06.03	19.06.03
3.	टीएन/38273	मे० कुरुतिलापट्ट पी. ए. सी. बी. लि०	16.03.98	16.03.98
4.	टीएन/वीएलआर/ 38650	मे० ओमाकुपम ग्राई. एग्रीकल्चरल बैंक लि०	22.01.01	22.01.01
5.	टीएन/वीएलआर/ 38654	मे० अनाइमलूर एम. पी. सी. एस	21.03.01	21.03.01
6.	टीएन/38670	मे० एन. एस. ट्रेडिंग	01.07.01	01.07.01
7.	टीएन/वीएलआर/ 38688	वेलाएकुलम एम. पी. सी. एस	08.10.01	08.10.01
8.	टीएन/38703	मे० आर. ए. बी. टेनिंग कम्पनी	10.11.01	10.11.01
9.	टीएन/वीएलआर/ 38781	मे० कडसापुरम एम. पी. सी. एस	01.12.02	01.12.02
10.	टीएन/वीएलआर/ 38791	मे० आई. बी. पी. आटो सर्विस	09.01.03	09.01.03
11.	टीएन/वीएलआर/ 38840	मे० कालावेपुथूर एम. पी. सी. एस	16.06.03	16.06.03
12.	टीएन/वीएलआर/ 38841	मे० वेम्बी इरीजन मटालीर एम पी. सी. एस	16.06.03	16.06.03
13.	टीएन/वीएलआर/ 38842	मे० मुलुवादी मिल्क प्रोड्यूसर्स को-ओप सोसाइटी लि०	16.06.03	16.06.03
14.	टीएन/वीएलआर/ 38843	मे० आइरनगुर एम. पी. सी. एस	16.06.03	16.06.03
15.	टीएन/वीएलआर/ 38799	मे० इलेक्ट्रोनिक्स कोर्मस कोड मेनेजमेंट एसोसिएशन इन्डिया	06.02.03	06.02.03

16. टीएन/एमडी/42793	मे० बेस्टेक इलेक्ट्रीकल इन्जीनियरिंग	01.12.02	01.12.02
17. टीएन/42849	मे० एत. पी. के. चीनाकानी नादर एण्ड कम्पनी	03.03.03	03.03.03
18. टीएन/42712	मे० तेन्थिल मूर्ति राइस मिल्स	28.05.02	28.05.02
19. टीएन/एमडी/42943	मे० धनलक्ष्मी सीने आर्ट्स	08.10.03	08.10.03
20. टीएन/43649	मे० बनीर नर्सिंग होम	28.06.00	28.06.2000
21. टीएन/50082	मे० आर. जी. एस. सीएडी	09.09.02	09.09.02
22. टीएन/50262	मे० ई. टी. आई रिन्यूएबल एनर्जी कन्सल्टेंट्स प्रा० लि०	28.03.03	28.03.03
23. टीएन/50302	मे० बेन्चमार्क विजन सिस्टम्स प्रा० लि०	01.03.03	28.02.03
24. टीएन/50323	मे० ग्रुथ होस्टल	29.04.03	29.04.03
25. टीएन/50358	मे० अरुन आयल ट्रेड	09.06.03	09.06.03
26. टीएन/50398	मे० मधु इन्जीनियरिंग सेल्स एण्ड सर्विस	27.06.03	27.06.03
27. टीएन/50409	मे० ई. जेड विया प्रा. लि.	24.05.03	24.05.03
28. टीएन/56279	मे० पैरामाउंट टी मार्केटिंग (एत. आई) प्रा० लि०	09.10.02	09.10.02

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर उस या उसी प्रभावी तिथि से अधिनियम को लागू करते हैं जो उक्त स्थापनाओं के नाम के सामने दर्शायी गई है।

(6)
[एत. आर. जोशी]

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त [मुम्बई 10]

दी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ऑफ इण्डिया

नई दिल्ली-110002, दिनांक 5 मार्च 2004

न013 सी.ए. (परीक्षा)/मई/2004: इंस्टीट्यूट की अधिसूचना सं0 13-सी.ए. (परीक्षा)/मई/2004 दिनांक 23 जनवरी, 2004 के अतिरिक्त विस्तार के तहत, सर्वसाधारण को यह सूचित किया जाता है कि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स व्यवसायिक शिक्षा-प्रथम, व्यवसायिक शिक्षा-द्वितीय एवं फाइनल की परीक्षाएं, क्वालिफिकेशन पाठ्यक्रमों, मैनेजमेंट एकाउन्टेन्सी पाठ्यक्रम (भाग प्रथम), कॉरपोरेट मैनेजमेंट पाठ्यक्रम (भाग प्रथम) एवं टैक्स मैनेजमेंट पाठ्यक्रम (भाग प्रथम) तथा इंश्योरेंस एवं रिस्क मैनेजमेंट (आई.आर.एम.) की परीक्षाएं जो 3 मई, 2004 से निर्धारित हुई थीं स्थगित कर दी गई हैं और अब यह परीक्षाएं 17 मई, 2004 से 25 मई, 2004 तक होंगी। पुर्ननिर्धारित परीक्षाओं की तिथियां निम्नप्रकार हैं :--

व्यवसायिक शिक्षा-प्रथम परीक्षा:- पाठ्यक्रम शिक्षा प्रणाली जो दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स के चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगुलेशन, 1988 के रेगुलेशन 25-बी (4) के अन्तर्गत जारी की गई है के अनुसार:-
21, 22, 24 और 25 मई, 2004 (प्रातः कालीन सत्र- 8 बजे से 11 बजे तक) भारतीय समयानुसार।

व्यवसायिक शिक्षा-द्वितीय परीक्षा: पाठ्यक्रम शिक्षा प्रणाली जो दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स के चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगुलेशन, 1988 के रेगुलेशन 28-बी (5) के अन्तर्गत जारी की गई है, के अनुसार :--

ग्रुप-I : 17, 18 और 19 मई 2004

ग्रुप-II : 20, 21 और 22 मई, 2004

(सोपहर का सत्र- 12 बजकर 30 मिनट से 3 बजकर 30 मिनट तक) भारतीय समयानुसार।

फाईनल परीक्षा: पाठ्यक्रम शिक्षा प्रणाली जो दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स के चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगुलेशन, 1988 के रेगुलेशन 31(2) के अन्तर्गत जारी की गई है के अनुसार:-

ग्रुप-I : 17, 18, 19 और 20 मई 2004

ग्रुप-II : 21, 22, 24 और 25 मई, 2004

(प्रातः कालीन सत्र- 8 बजे से 11 बजे तक) भारतीय समयानुसार।

मैनेजमेंट एकाउन्टेन्सी पाठ्यक्रम (भाग-प्रथम), कॉरपोरेट मैनेजमेंट पाठ्यक्रम (भाग-प्रथम) एवं टैक्स मैनेजमेंट पाठ्यक्रम (भाग-प्रथम) परीक्षाएं :-

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगुलेशन 1988 के "अनुसूची सी.डी. एवं ई." के अन्तर्गत:

ग्रुप-I : 17 और 18 मई 2004

ग्रुप-II : 19 और 20 मई, 2004

(प्रातः कालीन सत्र- 8 बजे से 11 बजे तक) भारतीय समयानुसार।

इन्श्योरेंस एवं रिस्क मैनेजमेंट (आई.आर.एम.) परीक्षा :-

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगुलेशन 1988 की 'अनुसूची जी' के अन्तर्गत

माइयूल 1 से 4 :- 17, 18, 19 और 20 मई 2004

(प्रातः कालीन सत्र- 8 बजे से 11 बजे तक) भारतीय समयानुसार।

परीक्षा केंद्र तथा अन्य शर्तें पूर्व घोषित ही रहेंगी।

जी. प्रोमोटेयर

जी0 सोमरोवर

समुक्त सचिव (परीक्षा)सी.सी.

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम

मि०सं.रा०स०वि०नि०:1-1/2003-प्रशासन

दिनांक 05 मार्च 2004

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम - 1962 (वर्ष 1962 की संख्या 26) की धारा - 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम केन्द्रीय सरकार की पूर्व-स्वीकृति से राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम सेवा विनियमावली-1967 में निम्न प्रकार से संशोधन करता है :-

- (i) विनियम संख्या - 13 (5) (i) (ख) में से निम्नलिखित प्रावधान हटाया जाए:
“बशर्ते कि निगम में कार्यरत गुप “घ” के जिन कर्मचारियों ने निगम की सेवा में दिनांक 23 जुलाई, 1966 को अथवा उससे पूर्व प्रवेश किया है, उन पर इस धारा में से कुछ भी लागू नहीं होगा।”
- (ii) विनियम संख्या - 13 (5) (ii) में से निम्नलिखित प्रावधान हटाया जाए:
“बशर्ते कि निगम में कार्यरत गुप “घ” के जिन कर्मचारियों ने निगम की सेवा में दिनांक 23 जुलाई, 1966 को अथवा उससे पूर्व प्रवेश किया है, उन पर इस धारा में से कुछ भी लागू नहीं होगा।”
- (iii) विनियम संख्या - 13 (5) में निम्न प्रकार से एक नई धारा “(iii)” को सम्मिलित किया जाए:
“ इस विनियम में निहित किसी बात के होते हुए भी कोई कर्मचारी 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के पश्चात किसी भी समय नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित में 3 माह की सूचना देकर निगम की सेवाओं से स्वेच्छिक रूप में सेवानिवृत्त हो सकता है ।”
- (iv) विनियम संख्या - 13 (5) में निम्न प्रकार से एक नई धारा “(iv)” को सम्मिलित किया जाए :
“ धारा (ii) के अंतर्गत सेवानिवृत्त होने वाले अथवा धारा (iii) के अंतर्गत स्वेच्छिक रूप में सेवानिवृत्त होने वाले किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की अभीष्ट तिथि को उसकी अर्हक सेवा ग्रेज्युटी प्राप्ति के उद्देश्यार्थ अधिकतम 5 वर्ष की अवधि तक बढ़ा दी जाएगी बशर्ते कि कर्मचारी द्वारा की गई कुल अर्हक सेवा की अवधि किसी भी मामले में 33 वर्ष से अधिक न हो और यह अधिवार्षिता की तिथि से बाहर न हो ।”

(v) विनियम संख्या -13 (5) में निम्न प्रकार से एक नई धारा “(v)” को सम्मिलित किया जाए :

“ धारा (ii) के अंतर्गत सेवानिवृत्त होने वाले अथवा धारा (iii) के अंतर्गत स्वैच्छिक रूप में सेवानिवृत्त होने वाले किसी कर्मचारी के मामले में सक्षम प्राधिकारी समुचित तथा पर्याप्त कारणों से तीन माह की सूचना अवधि की शर्त में छूट दे सकते हैं ।”

(vi) विनियम संख्या -13 (5) में निम्न प्रकार से एक नई धारा “(vi)” को सम्मिलित किया जाए:

“ जिस कर्मचारी ने इस विनियम के अंतर्गत सेवानिवृत्ति का चयन करके इस संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी को आवश्यक सूचना दे दी है, उसे उस प्राधिकारी के विशिष्ट अनुमोदन के बिना अपनी सूचना को वापिस लेने का अधिकार नहीं होगा ।”

“ बशर्ते कि उस द्वारा अपनी सेवानिवृत्ति वापिस लेने का अनुरोध सेवानिवृत्ति की अभीष्ट तिथि से पूर्व किया जाएगा”

2. ये संशोधन भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होंगे ।


(दिनेश राय)
प्रबंध निदेशक


RESERVE BANK OF INDIA

Ref.DBS.ARS.No. 571 / 08.21.002 / 2003-2004

February 13, 2004

In exercise of the powers under sub-section (1) of Section 41 of the State Bank of India Act, 1955 and in consultation with the Central Government, the Reserve Bank of India has appointed the following audit firms as Statutory Central Auditors of the State Bank of India for the year 2003-04 who shall hold office until the next Annual General Meeting of the bank.

1. M/s. B M Chatrath & Co., Kolkata
2. M/s. Vyas & Vyas, Mumbai
3. M/s. S P Chopra & Co., New Delhi
4. M/s. S Viswanathan, Chennai
5. M/s. R Devendra Kumar & Associates, Mumbai
6. M/s. O P Totla & Co., Indore
7. M/s. G S Mathur & Co., New Delhi
8. M/s. Sarma & Co., Kolkata
9. M/s. Venugopal & Chenoy, Hyderabad
10. M/s. K S Aiyar & Co., Mumbai
11. M/s. B D Bansal & Co., Amritsar
12. M/s. K P Rao & Co., Bangalore
13. M/s. Chaturvedi & Company, Kolkata
14. M/s. Phillipos & Co., Bangalore



(Usha Thorat)
Executive Director

DEPARTMENT OF GOVERNMENT & BANK ACCOUNTS
CENTRAL DEBT DIVISION
MUMBAI

In pursuance of Rule 18 of the Public Debt Rules, 1946 made by the Government of India under Section 28 of the Public Debt Act, 1944 and published in the Gazette of 20th April 1946 (as amended under the Notification No. F(9)/70-B/52 dated the 29th April, 1954 and the Notification in extra ordinary Gazette No. 67 dated 21st February 1980), the following list of securities lost etc. in respect of which prima facie ground exists for believing that the securities have been lost and the claim of applicant is just for the month ended January 2004 is hereby advertised. All persons other than the respective claimants named below, who have any claim upon these securities should communicate immediately with Chief General Manager, Reserve Bank of India, Central Office, Department of Government and Bank Accounts, Central Debt Division, Mumbai 400 008.

The list has been divided into two parts, List "A" being securities now advertised for the first time and list "B" being the list of securities previously advertised.

List "A"

No. of Security	Value in Rs./Grams	In whose name issued	From what date bearing interest	Name(s) of the claimant(s) for issue of duplicate and/or payment of discharge value	No. and date of order issued
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Byculla, Mumbai Circle					
9% Relief Bonds 1987					
BC.4297 and 4298 (GPA)	Rs.50,000/- each	Vinodkumar B. Roongta Manjuladevi V. Roongta	02.03.1988	Vinodkumar B. Roongta Manjuladevi V. Roongta	06.25.59 10.6.2002
BC.4327 (GPA)	Rs.50,000/-	Indukumar Roongta Madhudevi I. Roongta	03.03.1988	Indukumar Roongta Madhudevi I. Roongta	-do-
9% Relief Bond 1989(D)					
BCC-010333 (GPM)	Rs.40,00,000/-	Brijkishore Chaturvedi Uma B. Chaturvedi	25.7.2000	Brijkishore Chaturvedi Uma B. Chaturvedi	08.25.80 24.9.2003

Bangalore Circle
10% Relief Bonds 1985
List "B"

BL.2505	Rs.2,50,000/-	Dileep V. Anur and Dr. Vinod D. Anur	12.10.98	Dileep V. Anur and Dr. Vinod D. Anur	Diary No.463 No.01.03.05 Orders dated 9.12.2003
Mumbai (Fort) Circle					
Government of India 6.50% Loan 2003					
BY 031309	Rs.20,500/-	Reserve Bank of India	11.03.1997	M/s. ABC Bearings Ltd. Employees' Gratuity Fund	Case No.20.4.2212 General Manager's orders dated 27.11.2003. Central Office Biry No.303 dated 27.11.2003.
BY 031310	Rs.1,000/-	-do-	-do-	-do-	-do-

(A.S. Mohinani)
 p. Chief General Manager
 February 2004

STATE BANK OF INDIA
(Associates & Subsidiaries Group)

Mumbai, the 01st March 2004

SBD No. 20/2003-04.—In terms of Section 29(1) of State Bank of India (Subsidiary Banks) Act 1959, the State bank of India after consulting the Board of Directors of State Bank of Saurashtra and with the approval of the Reserve bank of India have appointed Shri S. K. Singh as Managing Director of State Bank of Saurashtra for a period of three years from the date of his assuming charge of the position.

A. K. PURWAR
Chairman

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION

New Delhi-110 002, the 27th February 2004

No. F. 47-5/2003/NCTE—In exercise of the powers conferred under Section 20(3) (c) of the National Council for Teacher Education Act, 1993 read with Regulation No. F. 28-14/95 NCTE dated 22nd January, 1996, the following persons are nominated under section 20(3)(c) as members of the various Regional Committees.

Northern Regional Committee, Jaipur

1. Shri R. C. Tripathi
H No. A-1055
Indra nagar
Lucknow
2. Prof. S. N. Singh
Globe Book Centre
Lanka
Varanasi-221 005
3. Dr. S. S. Shrivastava
Director
Bharatiya Shiksha Shodh Sansthan
Saraswati Kunj, Nirala Nagar
Lucknow-226 020 (U.P.)
4. Prof. S. D. Mishra
Retd. Prof. & Head of the Deptt.
Rajasthan University
7-TA-11, Jawahar Nagar
Jaipur-302 004
5. Prof. Narenara Jeet Singh
70, Vijay Nagar
Bhiwani (Haryana)

6. Prof. Chaman Lal Gupta
Prof. & Head Hindi Deptt.
H.P. University
Shimla

Southern Regional Committee, Bangalore

1. Prof. P. Venkataramaiah
436, Double Road
Kuvempunagar
Mysore – 570 009
2. Prof. V.B.B. Sarma
Dean & Head Education
Osmania University
Hyderabad
3. Prof. S.C. Sarma
20-8-11, New Ayodhya Nagar
Vijayawada – 520 003
4. Shri G.S. Mudambadithya
Retd. Director, SCERT, Karnataka
No. 3, Annapoorna
1st Main Opp. B.E.M.L. Salvage
New Tippsandra, Bangalore
5. Shri P.K. Madhvan
Sakethan, Killi Kurissi Manglam
Lakkidi, Palkkad
6. Prof. M.N.G. Mani
Principal
Sri Rama Krishna Mission Vidyalaya
College of Education
Sri Rama Krishna Vidyalya Post
Coimbatore – 641 020

Western Regional Committee, Bhopal

1. Dr. Balwant Raijani
Tirth, 264, Janakpuri
University Road
Rajkot – 360 005

2. Dr. Sharad Bhand
Ex-V.C.
E-1, Rishi Nagar,
Ujjain – 456 010
3. Shri Shyam Sunder Tripathi
Behind Ayurvedic College
Saraswati Vihar
Raipur – 492 010
4. Prof. Ilaben Nayak
Dean Education
Gujarat Vidyapeeth
Ahmedabad
5. Prof. K.K. Verma
Vice Chancellor
Lakshmibai National Institute of Physical Education
Gwalior
6. Prof. K.D. Mishra
Director / Principal
Maharaja Autonomous College
Chhatarpur, M.P.

Eastern Regional Committee, Bhubaneswar

1. Shri P.K. Patnaik
7F, BJB Nagar
Bhubaneswar – 751 014
2. Prof. Mangal Dubey
Ex Vice-Chancellor
A-10, Professor Colony
Uttari Shastri Nagar
Patna
3. Shri P.C. Mahapatra
Saraswati Kunja
E-59, Sector – A, Zone-A
Mancheswar Industrial Estate
Bhubaneswar – 751 010
4. Mrs. Neelema Sharma (Goswami)
Rukmani Nagar, Manohar Path
Wireless Dispur
Guwahati

5. Swami Sandarona Nanda
Assistant Principal
Ram Krishna Mission Vidya Peeth
Ram Krishna Nagar, P.O. Vidya Peeth
Distt. Devghar, Jharkhand

6. Sri Krishna Swami
Tarapur, Silchar
Kachar, Assam

II. Term of Office


The above nominations shall be for two years from immediate effect or till such time fresh appointments are made whichever is later.

- III.** Following Members will function as Chairperson of the Regional Committees as indicated below :-

Name	Regional Committee
1. Shri R.C. Tripathi	Northern Regional Committee
2. Prof. P.Venkataramaiah	Southern Regional Committee
3. Dr. Balwant Rajani	Western Regional Committee
4. Shri P.K. Patnaik	Eastern Regional Committee

IV. Allowances Payable

Travelling & Daily Allowances shall be paid to the Chairperson and Members of the Regional Committee as per Council's Rules.


(V.C. Tewari)
Member Secretary

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION (HEAD OFFICE)

New Delhi-66, the 25th February 2004

No. 2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt. 1/2059

S.O.....~~W. 2E4S.M/s. TATA INTERNATIONAL LTD.~~
~~Industrial Area, A.B. Road, Durgam-455001, Code No. MP/2288~~

have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act:

AND WHEREAS, I Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishment is, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme)

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule annexed hereto, I Central Provident Fund Commissioner hereby exempt the above said establishment with retrospective effect from which date relaxation order under Para 28(7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner, ~~Hyderabad~~ M.P. from the operation of the said Scheme for and upto a period of 3 years from 2.6.80 to 1.6.93, 2.5.93 to 1.6.96, 2.6.96 to 1.6.99, 2.6.99 to 1.6.02 and 2.6.02 to 1.6.05

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.
2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
3. All expenses involved in the administration of the Life Cover Scheme including maintenance of accounts, submission of returns, inspection charges etc. shall be borne by the employer.
4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Life Cover Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.
5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Life Cover Scheme.
6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employers under the Life Cover Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Life Cover Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
7. Notwithstanding anything contained in the Life Cover Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the scheme less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.
8. No amendment of the provisions of the Life Cover Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Life Cover Scheme of the said establishment as already adopted by the said establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. The responsibility for payment of assurance benefits to the nominee (S) legal heir (S) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.

11. Upon the death of the member covered under the Life Cover Scheme the employer in relation to said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee (S) Legal heir (S) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.


(S.R. JOSHI)

REGIONAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

The 26th February 2004

No. 2/1959/EDLI/Exemp/89/Pt. 1/2057

S.O.....W. DEAS.M/s. TATA INTERNATIONAL LT-D.,
Block-A, Shivesagar Estate, Dr. A.B. Road, Worli, Mumbai-18
code No. MH/6659

have applied for exemption under Sub-Section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act:

AND WHEREAS, I Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishment is, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme)

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule annexed hereto, I Central Provident Fund Commissioner hereby exempt the above said establishment with retrospective effect from which date relaxation order under Para 28(7) of the said Scheme has been granted by the Regional Provident Fund Commissioner, MH from the operation of the said Scheme for and upto a period of 3 years from 1.03.2002 to 28.02.05


SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.
2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
3. All expenses involved in the administration of the Life Cover Scheme including maintenance of accounts, submission of returns, inspection charges etc. shall be borne by the employer.
4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Life Cover Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.
5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Life Cover Scheme.
6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employers under the Life Cover Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said scheme are enhanced so that the benefits available under the Life Cover Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
7. Notwithstanding anything contained in the Life Cover Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the scheme less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.
8. No amendment of the provisions of the Life Cover Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Life Cover Scheme of the said establishment as already adopted by the said establishment or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. The responsibility for payment of assurance benefits to the nominee (S) legal heir (S) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.

11. Upon the death of the member covered under the Life Cover Scheme the employer in relation to said establishment shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee (S) Legal heir (S) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.



(S.R. JOSHI)

REGIONAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

The 27th February 2004

C.P.F.C. No. 1(4)2090/TN/04/2061

S.O.


whereas it

appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employer and the majority of the employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provision Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the their respective establishments namely;

S. No.	Code No.	Name of the establishment	Date of Coverage	Date of Consent
1	TN/42774	M/s. Aarnac Labs	13.11.2002	13.11.2002
2	TN/50425	M/s. Shenoy Nagar (East) Milk Consumer Co-op Society Ltd.	19.06.2003	19.06.2003
3	TN/38273	M/s. Kurustapattu PACB Ltd.	16.03.1998	16.03.1998
4	TN/VLR/38650	M/s. Onakupam Primary Agricultural Bank Ltd.	22.01.2001	22.01.2001
5	TN/VLR/38654	M/s. Anaimalai MPCPS	21.03.2001	21.03.2001
6	TN/38670	M/s. N.S. Trading	01.07.2001	01.07.2001
7	TN/VLR/38688	M/s. Vellaikulam MPCPS	08.10.2001	08.10.2001
8	TN/38703	M/s. RAB Tanning Company	10.11.2001	10.11.2001
9	TN/VLR/38781	M/s. Brammapuram MPCPS	01.12.2002	01.12.2002
10	TN/VLR/38791	M/s. IBP Auto Services	09.01.2003	09.01.2003
11	TN/VLR/38840	M/s. Kalavaiputhur MPCPS	16.06.2003	16.06.2003
12	TN/VLR/38841	M/s. Vembi Harijan Mahalir MPCPS	16.06.2003	16.06.2003
13	TN/VLR/38842	M/s. Mulluvadi Milk Producers Co-op Society Ltd.	16.06.2003	16.06.2003
14	TN/VLR/38843	M/s. Irungoor MPCPS	16.06.2003	16.06.2003
15	TN/VLR/38799	M/s. Electronic Commerce Code Management Association India	06.02.2003	06.02.2003
16	TN/MD/42793	M/s. Bestech Electrical Eng.	01.12.2002	01.12.2002
17	TN/42849	M/s. SPK Chinnakani Nadar and Company	03.03.2003	03.03.2003
18	TN/42712	M/s. Senthil Moorthi Rice Mills	28.05.2002	28.05.2002
19	TN/MD/42943	M/s. Dhana Lakshmi Cine Arts	08.10.2003	08.10.2003
20	TN/43649	M/s. Panneer Panning Home	28.06.2000	28.06.2000
21	TN/50082	M/s. RGS- CAD	09.09.2002	09.09.2002
22	TN/50262	M/s. ECIR Renewable Energy Consultants Pvt. Ltd.	28.03.2003	28.03.2003
23	TN/50302	M/s. Benchmark Vision Systems Pvt. Ltd.	01.03.2003	28.02.2003

24	TN/50323	M/s. Youth Hostel	29.04.2003	29.04.2003
25	TN/50358	M/s. Arun oil Trade	09.06.2003	09.06.2003
26	TN/50398	M/s. Madhu Engineering Sales & Service	27.06.2003	27.06.2003
27	TN/50409	M/s. EZ Vidya Pvt. Ltd.	24.05.2003	24.05.2003
28	TN/56279	M/s. Paramount Tea Marketing (SI) Pvt. Ltd.-	09.10.2002	09.10.2002

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishment from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.


(S.R. Joshi)

Regional Provident Fund Commissioner-I(C)

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

New Delhi-110002, the 5th March 2004

No. 13-CA (EXAM)/M/2004 :- In partial modification of the Institute's Notification No. 13-CA (EXAM)/M/2004 dated 23rd January, 2004, it is notified for general information that the Chartered Accountants Professional Education - I, Professional Education -II and Final examinations, Post Qualification Courses in Management Accountancy Course (Part-I), Corporate Management Course (Part-I) and Tax Management Course (Part-I) examinations and the first examination of Post Qualification Course in Insurance and Risk Management (IRM) scheduled to be held from 3rd May to 12th May, 2004 stand postponed. These examinations have now been scheduled to commence from 17th May, 2004 and will be held up to 25th May, 2004. The revised examination-wise date schedule is as given below:

PROFESSIONAL EDUCATION - I EXAMINATION :

[As per syllabus contained in the scheme notified by the Council under Regulation 25-B (4) of the Chartered Accountants Regulations, 1988.]

21st, 22nd, 24th and 25th May, 2004
--

(Morning Session - 8.00 a.m. to 11.00 a.m.) (IST)

PROFESSIONAL EDUCATION - II EXAMINATION :

[As per syllabus contained in the scheme notified by the Council under Regulation 28-B (5) of the Chartered Accountants Regulations, 1988.]

Group-I : 17th, 18th and 19th May, 2004

Group-II : 20th, 21st and 22nd May, 2004
--

(Afternoon Session - 12.30 p.m. to 3.30 p.m.) (IST)

FINAL EXAMINATION :

[As per syllabus contained in the scheme notified by the Council under Regulation 31 (2) of the Chartered Accountants Regulations, 1988.]

Group -I : 17th, 18th, 19th and 20th May, 2004

Group -II : 21st, 22nd, 24th and 25th May, 2004
--

(Morning Session - 8.00 a.m. to 11.00 a.m.) (IST)

MANAGEMENT ACCOUNTANCY COURSE (PART-I), CORPORATE MANAGEMENT COURSE (PART-I) AND TAX MANAGEMENT COURSE (PART-I) EXAMINATIONS:

[As per provisions contained in "Schedules C, D and E" of Chartered Accountants Regulations, 1988]

Group-I : 17th and 18th May, 2004
--

Group-II : 19th and 20th May, 2004

(Morning Session - 8.00 a.m. to 11.00 a.m.) (IST)

INSURANCE AND RISK MANAGEMENT (IRM) COURSE EXAMINATION:

[As per provisions contained in "Schedule G" of Chartered Accountants Regulations, 1988]

Modules I to IV	17th, 18th, 19th and 20th May, 2004
------------------------	--

(Morning Session -- 8.00 a.m. to 11.00 a.m.) (IST)

The Centres of examinations and other conditions shall remain the same.


(G. SOMASEKHAR)
JOINT SECRETARY (EXAMS.)-CC

NATIONAL COOPERATIVE DEVELOPMENT CORPORATION

F.No.NCDC:1-1/2003-Admn.

The 05th March 2004

In exercise of the powers conferred by Section 23 of the National Cooperative Development Corporation Act, 1962 (No.26 of 1962), the National Cooperative Development Corporation, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes amendments to National Cooperative Development Corporation Service Regulations, 1967, as follows :-

- (i) Delete the following proviso from Regulation 13(5)(i)(b) :
"provided that nothing in this clause shall apply to Group 'D' employees who entered the service of the Corporation on or before 23rd July, 1966"
- (ii) Delete the following proviso from Regulation 13(5)(ii):
"Provided that nothing in this clause shall apply to Group 'D' employees who entered the service of the Corporation on or before 23rd July, 1966"
- (iii) Insert a new Clause "(iii)" in Regulation 13(5) as follows:
"Notwithstanding anything contained in this Regulation, an employee, at any time, after he has completed twenty years of service may, by giving notice of not less than three months in writing to the appointing authority, retire voluntarily from service."

- (iv) Insert a new Clause “(iv)” in Regulation 13(5) as follows:

“The qualifying service as on the intended date of retirement of an employee retiring under Clause (ii) or retiring voluntarily under Clause (iii) shall be increased for the purpose of gratuity by a period not exceeding five years subject to the condition that the total qualifying service rendered by the employee does not in any case exceed thirty three years of service and it does not take him beyond the date of superannuation.”

- (v) Insert a new Clause “(v)” in Regulation 13(5) as follows:


“In the case of an employee intending to retire under Clause (ii) or intending to voluntarily retire under Clause (iii), the competent authority may, for good and sufficient reasons, relax the requirement of notice period of three months.”

- (vi) Insert a new clause “(vi)” in Regulation 13(5) as follows :-

“An employee who has elected to retire under this Regulation and has given the necessary notice to that effect to the appointing authority, shall be precluded from withdrawing his notice except with the specific approval of such authority :-

“Provided that the request for withdrawal shall be made before the intended date of his retirement.”

2. These amendments shall come into effect from the date of publication in the Gazette of India.


(Dinesh Rai)
Managing Director